



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 75]

No. 75]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 29, 1980/फाल्गुन 10, 1901

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 29, 1980/PHALGUNA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भ्रम संवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1980

कां० प्रा० 131(अ):—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा, इससे उपायुक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो कृषि के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के उन प्रवर्गों को संदेय हैं, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 1 की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, पुनरीक्षित करने के लिये, की गई निम्नलिखित प्रस्थापनायें, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्थापनाओं पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जायेगा।

उपर विनिर्दिष्ट अधिधि की समाप्ति के पूर्व, उक्त प्रस्थापनाओं की बाबत जो भी आपत्ति या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार उस पर विचार करेगी।

अनुसूची

कर्मचारियों के प्रवर्ग

प्रतिदिन मजदूरी की सर्व समावेशी न्यूनतम दरें

क्षेत्र-क	क्षेत्र-ख-1	क्षेत्र-ख-2	क्षेत्र-ग	क्षेत्र-घ
र० प०	र० प०	र० प०	र० प०	र० प०
1		2		

अनुसूची :

- (1) बेलवार (पुरुषास्त्री) : (2) काफ बाय : (3) पशुपाल : (4) चौकीदार : (5) क्लीनर  
(6) कमीनर (मोटर) ; श्रेष्ठ ड्रेक्टर : पशुपाला ; एम०टी० (7) खुला चारा एकत्रित करना : (8) घोड़ी (9) डेरी कुली (10) डेरी वाला (11) स्टाक खोलना  
(12) ड्रेक्टर (13) ड्राइवर (बैल : खच्चर) (14) फीडर वयस्क सूखी घास  
(15) घास काटने वाला (16) चरवाहा (17) मक्खनगार (भण्डार-मजदूर)

1

2

(18) श्रमिक (पुरुष/स्त्री) : बायलर : पशुपालन खेती, साधारण, लदाई और उतराई, बंढन बनाना, कोना उर्वरक, कटाई प्रकीर्ण, भोजन बुवाई, छप्पर छाना, प्रतिरोपण, (निराई); (19) माली, 20 मजदूर (वृक्ष संवर्धक, कम्पोस्ट, डेरी, घास का चट्टा लगाना, सिंचाई, खाद, चट्टा लगाना, बुधकस, राशन कस, भण्डार, मलेरिया-रोधक, (एम० आर०) (21) संधेवाहक (कार्यालय) (22) खपरासी (23) सईस, (24) छली घास बांधना और ढकना (25) स्वीपर (भाड़ूकबा) (26) गांठें तोलना और होना, (27) तोलनेवाला (गांठ, पल्ली) (28) पानी वाला (29) तार काटने वाला (30) तार मिस्त्री और टीन लेबल चिपकाना (31) अस्त-बल वाला (32) ट्रोली वाला (33) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग, जो अकुशल प्रकार के हैं।

7.50 6.85 6.20 5.65 5.10

अर्धकुशल/अकुशल/पर्यवेक्षीय :

(1) सहायक (चौधरी) : (2) परिचारक (सांड), अना-स्थल, फुटटी मशीन, छात्रावास, सूखा पशुधन, अनाज-केशर, पम्प, रोगी-पशु आवास, अस्तबल, याई, पशुधन (3) सहायक (प्लम्बर), (4) परिचारक (5) भिखारी, (6) गांठर, (7) सांड वाला (8) मजदूर वाला (9) कोचबा (10) मोची, (11) कुचक, (12) दफ्तरी, (13) पत्र-वितरक (14) ड्रैसर (15) फेरिअर (नाल लगाने वाला) (16) फोडर (17) फायरमैन (18) खाला (19) हथौड़ावाला (20) मददगार (लोहार) (21) मक्खनगार (22) जमादार (संतरी) (23) जमादार (24) खलासी (25) माली (ज्येष्ठ), (26) मट मिस्त्री (27) मजदूर (शिक्षित) (28) नालबन्द (29) तेलवाला (30) हलवाहा (31) चट्टा लगाने वाले (32) पर्यवेक्षक (33) छप्पर छाने वाला (34) तोलनेवाला (35) बाल्वमैन (36) बाल्वमैन (ज्येष्ठ), (37) किसी भी नाम से कहलाने वाला कोई अन्य प्रवर्ग, जो अर्ध-कुशल प्रकार के हैं।

9.35 8.55 7.75 7.05 6.40

कुशल :

(1) कारीगर (वर्ग II, III, IV), (2) लोहार, (3) लोहार (वर्ग II), (4) बायलरमैन (5) बड़ई (6) बड़ई (वर्ग II) (7) बड़ई एवं लोहार, (8) चौधरी (9) चालक (ड्राईवर) (10) चालक (ड्राईवर) (ईजन, ट्रैक्टर, एम०टी० मोटर) (11) बिजली मिस्त्री (12) फिटर (13) मशीन राजमिस्त्री (14) राजमिस्त्री (वर्ग II) (15) मशीन हूँड, (वर्ग II, III, IV) (16) मशीन वाला (17) मेट श्रेणी-1 (ज्येष्ठ) (18) मैकेनिक (19) बुध राइटर (20) मिस्त्री (प्रधान) (21) सांचेवाला (22) उपस्थिति राइटर (23) प्रचालक (नलकूप) (24) पेंटर (25) प्लम्बर (नलसाज) (26) मलाहगर (27) गद्दी वाला (28) तार मिस्त्री (29) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग, जो कुशल प्रकार के हैं।

11.95 10.95 9.95 9.00 8.20

अति-कुशल :

(1) कारीगर वर्ग 1 (2) लोहार वर्ग 1 (3) बड़ई वर्ग 1 (4) मशीन हूँड, वर्ग 1, (5) राजमिस्त्री वर्ग 1, (6) मैकेनिक (ज्येष्ठ) (7) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग जो अति कुशल प्रकार के हैं।

14.95 13.70 12.40 11.25 10.25

लिपिक वर्ग :

(1) सहायक (फार्म), (2) सहायक (3) रोकड़िया (4) लिपिक (5) मुंशी (6) रजिस्टर पाल (7) स्टोर-क्लीपर (भण्डारी) (8) समय-पाल (टाइमक्लीपर) (9) टाइपिस्ट (10) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग, जो लिपिक-वर्ग प्रकार के हैं।

11.95 10.95 9.95 9.00 8.20

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये—

(1) क्षेत्र ए०, बी० -1, पी०-2 और सी० में वे सभी स्थान समाविष्ट होंगे जो इस अधिसूचना के उपाबन्ध में निर्दिष्ट हैं और जिसमें निगमों या नगर पालिकाओं या छावनी बोर्डों या किसी विशिष्ट स्थान की अधिसूचित क्षेत्र समिति की परिधि से 8 किलोमीटर की दूरी के अन्दर के सभी स्थान सम्मिलित होंगे, तथा क्षेत्र डी० में वे सभी स्थान समाविष्ट होंगे जो क्षेत्र ए०, बी०-1, बी०-2 और सी० के अन्तर्गत नहीं हैं।

(2) जहाँ किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें कृषि के अनुसूचित नियोजन में के कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार, द्वारा, जिसके लिये यह समुचित सरकार हो, नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम है, वहाँ इस अधिसूचना के अधीन न्यूनतम मजदूरी के रूप में उच्चतर दर दी जायेगी।

(3) (क) अकुशल काम से ऐसा काम अभिप्रेत है जिसमें साधारण संक्रियाएं आयें और जिसे करने के लिये थोड़ी सी कुशलता या अनुभव का होना या बिल्कुल ही न होना अपेक्षित हो।

(ख) अधकृशल काम से ऐसा काम अभिप्रेत है जिसमें कुशलता या क्षमता की कुछ मात्रा आये जिसे काम पर, अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाये और जो किसी कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन में किया जा सके तथा इसके अन्तर्गत अधकृशल पर्यवेक्षकीय काम भी है ।

(ग) कुशल काम से ऐसा काम अभिप्रेत है जिसमें कुशलता या क्षमता आये जिसे काम पर अनुभव द्वारा या शिक्षा के रूप में या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्थान में प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त किया जा सके और जिसके करने में पहले और विवेकबुद्धि की आवश्यकता हो ।

(घ) 'अति कुशल' काम से ऐसा काम अभिप्रेत है जिसमें कतिपय कार्यों के करने में परिपूर्णता की ऐसी उच्च मात्रा और पूर्ण क्षमता की अपेक्षा है जो गहन तकनीकी या वृत्तिक प्रशिक्षण या लम्बे समय तक व्यावहारिक कार्य अनुभव से प्राप्त की गई है और जिसमें कर्मकार से यह भी अपेक्षित है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक निर्णय या विनिश्चय करे और इसके लिये पूर्णतः जिम्मेदार हो ।

(4) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होती हैं ।

(5) मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वसमावेशी दरों के रूप में होंगी और उनके अन्तर्गत साप्ताहिक विश्राम दिन की मजदूरी भी होगी ।

(6) नियोग्य व्यक्तियों तथा 18 वर्ष से कम आयु के अल्पवयस्क व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें, समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मचारों को संदेय दरों की क्रमशः 70 प्रतिशत और 80 प्रतिशत होगी ।

## उपावग

राज्य, संघ राज्यक्षेत्र का नाम		शहरों/नगरों के वर्ग		
	'ए०'	'बी०-1'	'बी०-2'	'सी०'
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	—	विजयवाड़ा (वैजवाड़ा) विशाखापत्तनम (विजगापट्टनम)	अडोनी, अन्नापल्ली, अन्तपुर, बंडर, (मसुलीपट्टनम) भीमावरम, चिरासा, चित्तूर, कुडप्पा, एलूरु, गुडीवाड़ा, गुन्ताकल, गुंटूर, काकीनाड़ा, करीम नगर, खम्माम, कोठागुडम करमूल, महबूब नगर, मंज्याण, नैल्लूर, निजामाबाद, प्रंगोल, प्रोहत्तूर, राजामुंद्री, सूकाकुल्लम, तैनाली, तिछपति, विजयपुरी, विजयवाड़ा (वैजवाड़ा), विजयानगरम बारंगल ।
असम	—	—	गोहाटी	—
बिहार	—	—	पटना धनबाद जमशेदपुर	आरा, बेतिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, बोकारो इत्यादि नगर, छप्परा, दरभंगा, शेनापुर, गया, हजारीबाग, कटिहार, मुंगेर, जमालपुर मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रांची ।
चण्डीगढ़	—	—	—	चण्डीगढ़ ।
दिल्ली	दिल्ली	—	—	—
गुजरात	अहमदाबाद	—	सूरत बड़ोदरा (बड़ोदा) भावनगर राजकोट	आनन्द, भावनगर, भुज, भड़ौच, कैम्बे, धीरजी, गोधरा, गोन्वल, जामनगर, जूनागढ़, कलोल, महेमाना, मोरबी, नाडियाड, नवसारी, पाटन, पोरबन्दर, सुरेन्द्रनगर, बेरावल ।
हरियाणा	—	—	—	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल, कैथल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर ।
जम्मू और काश्मीर	—	—	श्रीनगर, जम्मू	—
कर्नाटक	बंगलूर	—	हुबली, धारवाड़	भागलकोट, बेनगम, बेलगारी, भद्रावती, बीडार, बीजापुर, चित्रादुर्ग, बेतनगर, गावग-बेलगारी, गुलबर्गा, हसन, होमपेट, कोलार, स्वर्णक्षेत्र, मांड्या, मंगलूर, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, तुमकूर ।
केरल	—	—	कोचीन, त्रिवेंद्रम, अलवेयी कालोफट, (कोमीकोड)	अपेप्पी, बदगारा, कन्नौर, कर्णाटवेरी, कथामकुलककोट्टायम, पालघाट, तेल्लोचेरी, त्रिवूर, थ्रोलीन ।
मध्य प्रदेश	—	—	इन्दौर, जबलपुर, भोपाल, (खालियर लस्कर) भिलाई	बिलासपुर, बुरहानपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, देवास, दुर्ग, इटारसी, खण्डवा, मंसौर, महु (छावनी), मोरना, मुरबारा, नीमूच, रायपुर, रायगढ़, रतलाम, रोवा, सागर, सतना, उज्जैन, खिदिशा ।
महाराष्ट्र	मुम्बई	नागपुर, पूना	शोलापुर, नासिक	अचलपुर नगर समूह, अहमद नगर, अकोला, अमलनेर, अंबरनाथ, अमरावती, औरंगाबाद, बारसो, भिवंडी, भुसावळ, चांवा, चन्द्रपुर बुलिया, दौम्बिवळ, गोंडिया, इच्छलका रंजिया, जलगांव, जालना, कल्याण, कामटी, खामगांव, कोल्हापुर, लातूर, मानेगांव, नांदेड, नन्दुरबार, नासिकरोड, वेवनासी, पंढरपुर, परभानी, पिम्परी, चिन्दावाड, सांगली, मिराज, सतारा, उल्हासनगर, यवतमाल, यवर्गा ।
उड़ीसा	—	—	राउरकेला	बालासोर, बेहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, पुरी, सम्बलपुर ।
पाण्डिचेरी	—	—	—	पाण्डिचेरी ।

1	2	3	4	5
पंजाब	—	—	अमृतसर, लुधियाना	अबोहर, बटाला, भटिन्डा, फिरोजपुर, हौशियारपुर, जलन्धर, मलेर-कोटला, मोगा, पठानकोट, पटियाला, फगवाड़ा।
राजस्थान	—	—	जयपुर, अजमेर	अलवर, बेवार, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूरा, गंगानगर, जोधपुर, कोटा, सीकर, टोंक, उदयपुर।
तमिलनाडु	मद्रास	—	कोयम्बटूर, मद्रास, सलेम, तिरुचिरापल्ली (तिरुनापल्ली)	अन्बुर, अरुपुकोटाई, बोडोनयाकानूर, कुड्डलूर, चिदम्बरम, डिडीगल, इरोड, गुडीयथम, काडयानालूर, कांचीपुरम, कराईकुडी, कलर, कोविलपट्टी, कुम्माकोनम, मयुरम, मेट्टुपालयम, मागापट्टिनम, नागरकोइल, पलायमकोट्टाई, परमाकडी, पोल्लवी, पुडुकोट्टाई, राजापलयम, सिन्नाकासी, श्रीरंगम, श्रीविल्वपुटूर, तन्नारम, थंजाडूर, (तंजौर), टिडीयानम, तिरुनेलवेली, तिरुपुर, तिरुवन्मलाई, तूतीकोरिन, बालपरुई, वनियमनोर्, वेलोर, विश्वीपुरम, विरुधुनगर।
उत्तर प्रदेश	—	कानपुर, लखनऊ	आगरा, इलाहाबाद, बाराणसी, (बनारस), मेरठ	अलीगढ़, (कोल अलीगढ़), अमरोहा, बलिया, बहराच, बांदा, बरेली, बस्ती, बदायूं, बुलंदशहर, खंडोसी, देहरादून, इटावा, फैजाबाद एवं अयोध्या, फर्रुखाबाद-एवं-फतेहगढ़, फतेहपुर, फीरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हल्द्वानी एवं काठगोदाम, हाथु, हरदोई, हरिद्वार, हाथरस, जौनपुर, झांसी, बुर्ग, कासगंज, मथुरा, मऊनाथभंजन, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, रुहेली, सहारनपुर, सभल, शाहजहांपुर, सीतापुर।
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	—	अमनगंज, दुर्गापुर	बैद्यपती, बालूरी, बनगांव, बांकुरा, बांसबेड़िया, बैरकपुर, बसीरगढ़, बैरहामपुर, भाटपाड़ा, बजबज, बर्धमान, चकड़ाह, चमदानी, चन्दनगर, कुच बिहार, इंगलिश बाजार, हालीशहर, हुगली-चिन्सूरा, जलपाई-गुडी, कमरहटी, कंचन पाड़ा, खगड़पुर, कृष्णनगर, मिदनापुर, नवादीप, नईहटी, नार्थबमरूम, पतिहाटी, पुरलिया, राताघाट, रिशरा, शान्तिपुर, मेरमपुर, सिलीगुडी, टीटागढ़, उत्तरपारा, कोटरंग।
गोवा, दमन और दीव	—	—	गोवा	मरमूगोवा।

[सं० एस०-32019(1)/79-इन्स्यू०सी०(एस० इन्स्यू०)]

आर०के०ए० सुब्राह्मण्य, अपर सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 1980

**S.O. 131 (E).**—The following proposals made by the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), for revising the minimum rates of wages as specified in column 2 of the Schedule, annexed hereto, payable to the categories of employees employed in the Employment in agriculture, specified in the corresponding entries in column 1 of the said Schedule, are hereby published, as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposals shall be taken into consideration on or after the expiry of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said proposals before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

## SCHEDULE

Categories of employees	All inclusive minimum rates of wages per day				
	Area A Rs. P	Area B 1 Rs. P.	Area B 2 Rs. P.	Area C Rs. P.	Area D Rs. P.
1	2				
Unskilled :					
(1) Beldar (Male/Female) ; (2) Calf Boy ; (3) Cattleman ; (4) Ghoskidar ; (5) Cleaner ; (6) Cleaner (Motor, Shed ; Tractor ; Cattle Yard ; M.T.) ; (7) Collecting Loose fodder ; (8) Dhobi ;					

1	2				
(9) Dairy Coolie ; (10) dairyman ; (11) Dismantling stocks ; (12) Dresser ; (13) Driver (Bullocks ; Mule) ; (14) Feeder (Adult) Hay ; (15) Grass Cutter ; (16) Grazier ; (17) Helper (Store-Mazdoor) ; (18) Labourer (Male ; Female ; Boiler ; Cattle Yard ; Cultivation ; General ; Loading and Unloading ; Bundling ; Carting ; Fertilizers ; Harvesting ; Miscellaneous ; Seeding ; Sowing ; Thatching ; Transplanting ; Weeding) ; (19) Mali ; (20) Mazdoor (Arboriculturist ; Compost ; Dairy ; Hay-Stacking ; Irrigation, Manure, Stacking, Milk Room ; Ration Room ; Store ; Anti-Malaria ; M.R.) ; (21) Messenger (Office) ; (22) Peon ; (23) Svce ; (24) Tying & Carrying Loose Hay ; (25) Sweeper ; (26) Weighing and Carrying Bales ; (27) Weighman (Bales ; Pally) ; (28) Waterman ; (29) Wire-Cutter ; (30) Wireman and Fixing Tin Labels ; (31) Stable Man ; (32) Trolley Man ; (33) Any other categories by whatever name called which are of unskilled nature.	7.50	6.85	6.20	5.65	5.10
<b>Semi-Skilled/Unskilled Supervisory :</b>					
(1) Assistant (Chowdhary) ; (2) Attendant (Bull ; Calving Line ; Chaff Cutter ; Hostel ; Dry Stock ; Grain Crusher ; Pump ; Sick-line ; Stable ; Yard ; Stock) ; (3) Assistant (Plumber) ; (4) Attendant ; (5) Bhisti ; (6) Brander ; (7) Bullman ; (8) Butterman ; (9) Coachman ; (10) Cobbler ; (11) Cultivator ; (12) Daftry ; (13) Delivery Man ; (14) Dresser ; (15) Farriar ; (16) Feeder ; (17) Fireman ; (18) Gowala ; (19) Hammerman (20) Helper ; (Blacksmith) (21) Helper ; (22) Jamadar (Stand) ; (23) Jamadar ; (24) Khalasi ; (25) Mali (Senior) ; (26) Mate/Mistry ; (27) Mazdoor (Literate) ; (28) Nalband ; (29) Oilman ; (30) Ploughman ; (31) Stackers ; (32) Supervisor ; (33) Thacher ; (34) Weighman ; (35) Valveman ; (36) Valveman (Senior) ; (37) Any other categories by whatever name called which are of a semi-skilled nature .	9.35	8.55	7.75	7.05	6.40
<b>Skilled :</b>					
(1) Artificier (Class II ; III ; IV) ; (2) Blacksmith ; (3) Blacksmith (Class II) ; (4) Boiler Man ; (5) Carpenter ; (6) Carpenter (Class II) ; (7) Carpenter-cum-Blacksmith ; (8) Chowdhary ; (9) Driver ; (10) Driver (Engine Tractor ; M.T. ; Motor) ; (11) Electrician ; (12) Fitter ; (13) Mason ; (14) Mason Class II ; (15) Machine Hand (Class II, III, IV) ; (16) Machineman ; (17) Mate, Gr. I (Senior) ; (18) Mechanic ; (19) Milk Writer ; (20) Mistry (Head) ; (21) Moulder ; (22) Muster Writer ; (23) Operator (Tubewell) ; (24) Painter ; (25) Plumber ; (26) Welder ; (27) Upholsterer ; (28) Wireman ; (29) Any other categories by whatever name called which are of a skilled nature.	11.95	10.95	9.95	9.00	8.20
<b>Highly Skilled :</b>					
(1) Artificier, Class I ; (2) Blacksmith, Class I ; (3) Carpenter, Class I ; (4) Machine Hand, Class I ; (5) Mason, Class I ; (6) Mechanic (Senior) ; (7) Any other categories by whatever name called which are of highly skilled nature .	14.95	13.70	12.40	11.25	10.25
<b>Clerical :</b>					
(1) Assistant (Farm) ; (2) Assistant ; (3) Cashier ; (4) Clerk ; (5) Munshi ; (6) Register keeper ; (7) Storekeeper ; (8) Timekeeper ; (9) Typist ; (10) Any other categories by whatever name called which are of a clerical nature .	11.95	10.95	9.95	9.00	8.20

**EXPLANATION:—**For purposes of this notification—

- (1) Areas A, B-1, B-2 and C shall respectively comprise all the places specified in the Annexure to this notification as such areas, and includes all places within a distance of eight Kilometre from the periphery of a Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee of a particular place ; and Area D shall comprise of all the places not included in Areas A, B-1, B-2 and C ;
- (2) Wherein any area the minimum rates of wages fixed under this notification are lower than the minimum rates of wages fixed by the State Government for employees in the scheduled employment of Agriculture in respect of which it is the appropriate Government, the higher rate would be payable as minimum wage under this notification ;

- (3) (a) Unskilled work means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job ;
- (b) Semi-skilled work means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work ;
- (c) Skilled work means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement ;
- (d) "Highly skilled" means work which calls for a degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks acquired through intensive technical or professional training or practical work experience for long years and also requires of a worker to assume full responsibility for the judgement or decisions involved in the execution of these tasks.
- (4) The minimum rates of wages shall consist of all inclusive rates ; and include also the wages for weekly day of rest ;
- (5) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also ;
- (6) The minimum rates of wages for disabled and young persons below 18 years of age shall be 70% and 80% respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

## ANNEXURE

Name of the State/ Union Territory	Class of cities/Towns			
	'A'	'B 1'	'B 2'	'C'
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh	Hyderabad	..	Vijayawada (Bezawada) Visakapatnam (Vijagapatam)	Adoni, Anakapalle, Anantapur, Bandar (Masulipatam) Bheemavaram, Chirala, Chittoor, Cuddapah, Eluru, Gudivada, Guntakkal, Guntur, Kakinada, Karim Nagar, Khammam, Kothagudem, Kur- nool, Mahbubnagar, Nandyal, Nellore, Nizamabad, Ongole, Proddatur, Raja- mundry, Srikakulam, Tenali, Tirupati, Vijayapuri Vizianagaram, Warangal.
Assam	..	..	Gauhati	..
Bihar	..	..	Patna, Dhanbad, Jamshedpur	Arrah, Bettiah, Bhagalpur, Bokaro Steel City, Biharsharif Chapra, Darbhanga, Dinapur, Gaya, Hazaribagh, Katihar, Monghyr, Jamalpur, Muzaffarpur, Purnea, Ranchi.
Chandigarh	..	..	..	Chandigarh
Delhi	Delhi	..	..	..
Gujarat	Ahmedabad	..	Surat, Vadodara (Baroda) Bhavanagar, Rajkot	Anand, Bhuj, Broach, Cambay, Dhoraji, Godhra, Gondal, Jamnagar, Junagadh, Kalol, Mahesana, Morvi, Nadiad, Nav- sari, Patan, Porbandar, Surendranagar, Veraval.
Haryana	..	..	..	Ambala, Bhiwani, Faridabad, Gurgaon, Hisar, Karnal, Kaithal, Panipat, Roh- tak, Sirsa, Sonapat Yamunanagar.
Jammu and Kashmir	..	..	Srinagar, Jammu	..
Karnataka	Bangalore	..	Hubli Dharwar	Bagalkot, Belgaum Bellary, Bhadravati Bidar, Bijapur, Chitradurga, Davangere, Gadag-Betgari, Gulbarga, Hassan, Hos- pet, Kolar Gold Fields, Mandya, Manga- lore, Mysore, Raichur, Shimoga, Tumkur
Kerala	..	..	Cochin, Trivandrum Alwaye, Calicut (Kozikode)	Alleppy, Badagara, Cannonore, Chan- ganachery, Kayamkulam, Kottayam, Palghat, Tellicherry, Trichur, Quilon.
Madhya Pradesh	..	..	Indore, Jabalpur, Bilai Gwalior (Lashkar) Bhopal	Bilaspur, Burhanpur, Chhindwara, Damoh, Dewas, Durg, Itarsi, Khandwa, Mand- saur, Mhow (Cantt.) Murwara, Morena, Neemuch, Raigarh, Raipur, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Ujjain, Vidisha.
Maharashtra	Bombay	Nagpur, Poona	Sholapur, Nasik	Achalpur Town group, Ahmednagar, Akola, Amalner, Amarnath, Amravati, Aurangabad, Barsi, Bhivandi, Bhusawal, Chanda, Chandrapur, Dhulia, Dombivli,

1	2	3	4	5
				Gondia, Ichalkaranjia, Jalgaon, Jalna, Kalyan, Kamptee, Khangaon, Kolhapur, Latur, Malegaon, Nanded, Nandurbar, Nasik Road, Deolali, Pandharpur, Parbhani, Pimpri-Chinchwad, Sangli-Maraj, Satara, Ulhasnagar, Yeotmal, Wardha.
Orissa	..		Rourkela	Balasore, Behrampur, Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Sambalpur.
Pondicherry	..	..	..	Pondicherry.
Punjab	..	..	Amritsar, Ludhiana	Abohar, Batala, Bhatinda, Ferozepur, Hoshiarpur, Jullundur, Malerkotla, Moga, Pathankot, Patiala, Phagwara.
Rajasthan	..	..	Jaipur, Ajmer	Alwar, Beawar, Bhartpur, Bhilwara, Bikaner, Churu, Ganganagar, Jodhpur, Kota, Sikar, Tonk, Udaipur.
Tamil Nadu	Madras	..	Coimbatore, Madurai, Salem, Tiruchirappally (Trichinopoly)	Ambur, Aruppukkottai, Bodinayakanur, Chidambaram, Cuddalore, Dindigul, Erode, Gudiyatham, Kadayanallur, Kancheepuram, Karaikudi, Karur, Kovilpatty, Mayuram, Kumbakonam Mettupalayam, Nagapattinam, Nagercoil, Palayamcottai, Pollachi, Pudukkottai, Rajapalayam, Sivakasi, Srirangam, Srivilliputtur, Tambaram, Thanjavur (Tanjore), Tindivanam, Tirunelveli, Tirupur, Tiruvannamalai, Tuticorin, Valparai, Vaniyambodi, Vellore, Villipuram, Virudhunagar.
Uttar Pradesh	..	Kanpur, Lucknow	Agra, Allahabad, Varanasi (Banaras), Meerut	Aligarh, (Koil Aligarh), Amroha, Ballia, Bahraich, Banda, Bereilly, Basti, Budaun, Bulandshahar, Chandausi, Dehradun, Etawah, Faizabad-cum-Ayodhya, Farukhabad-cum-Fatehgarh, Fatehpur, Firozabad, Ghaziabad, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Haldwani-cum-Kathgodam, Hapur, Hardoi, Haridwar, Hathras, Jaunpur, Jhansi, Khajuraho, Kasganj, Mathura, Maunath Bhanjan, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Pilibhit, Rampur, Roorkhee, Saharanpur, Sambhal, Sahjahanpur, Sitapur.
West Bengal	Calcutta	..	Asansol, Durgapur	Baidyabati, Bally, Bangaon, Bankuri, Bansbaria, Barrackpur, Basirhat, Behrampur, Bhatpara, Budge Budge, Burdwan, Chakdaha, Champdani, Chander-nagore, Cooch Behar, English Bazar, Halishahar, Hooghly, Chinsura, Jalpaiguri, Kamarhati, Kanchrapara, Khatagpur, Krishnagar, Midnapur, Nabadwip, Naihati, North, Dum Dum, Panihati, Purulia, Ranaghat, Raishra, Santipur, Serampur, Siliguri, Titagarh, Uttarpara-Kotrung.
Goa Daman & Diu	..		Goa	Marmugoa.

R.K.A. SUBRAHMANYA, Additional Secy.

